



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2005/माघ 28, 1926

No. 177]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2005/MAGHA 28, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2005

(आय-कर)

का.आ. 232(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-झख की उपधारा (11ख) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवाँ संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 18घग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“धारा 80-झख की उपधारा (11ख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का प्रारूप।

18घघ. ऐसे लेखा की रिपोर्ट, जिसका धारा 80-झख की उपधारा (11ख) के अधीन आय-कर विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा दिया जाना अपेक्षित है, प्रारूप सं० 10गगखग में दी जाएगी।”

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्रारूप सं० 10गगखख के पश्चात्, निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्रारूप सं० 10गगखग

(नियम-18घघ देखिए)

1. निर्धारिती का नाम :

2. स्थायी खाता संख्या :

3. प्रास्थिति :

4. अस्पताल का स्वामित्व :

(क) क्या अस्पताल निर्धारिती के स्वामित्वाधीन है हां..... नहीं.....

(ख) (i) यदि नहीं, तो स्वामी का नाम :

(ii) क्या स्वामी धारा 40क(2)(ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति है : हां..... नहीं.....

5. अस्पताल का नाम और पता

6. चिकित्सा सेवाओं के प्रारंभ की तारीख :

7. आरंभिक निर्धारण वर्ष :

8. स्थानीय विनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी से अनुमोदन (आरंभिक निर्धारण वर्ष में अनुमोदन की प्रति संलग्न करें) :

अनुमोदन	जारी करने वाला प्राधिकारी	अनुमोदन की तारीख और संख्या
(क) अस्पताल के संनिर्माण के लिए अनुज्ञा		
(ख) संनिर्माण के पूरा होने का प्रमाणपत्र		

9. अस्पताल की अवस्थिति :

(i) उस स्थान/क्षेत्र का नाम जहां अस्पताल स्थित है

(ii) क्या वह स्थान/क्षेत्र किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर है (कृपया उस नगरपालिका/छावनी बोर्ड का नाम उपदर्शित करें) हां..... नहीं.....

(क) यदि हां, तो कृपया उस स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या का आकार उपदर्शित करें जहां अस्पताल स्थित है (2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) यदि नहीं तो कृपया नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से ऐसे क्षेत्र की दूरी उपदर्शित करें

10. अस्पताल के तकनीकी विनिर्देश :

(क) रोगियों के लिए पलंगों की संख्या हां..... नहीं.....

(ख) क्या आपरेशन थिएटर की व्यवस्था है हां..... नहीं.....

(ग) क्या प्रसूतिगृह की व्यवस्था है हां..... नहीं.....

(घ) क्या अस्पताल में विकृति विज्ञान-प्रयोगशाला की व्यवस्था है हां..... नहीं.....

(ङ) अस्पताल में (चौबीस घंटे) उपलब्ध अर्हित डाक्टरों की संख्या

- (च) (चौबीस घंटे) उपलब्ध नर्सों की संख्या
 (छ) क्या अस्पताल आपात मामलों से निपटने के लिए सुसज्जित है हां..... नहीं.....
 (ज) क्या मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई)/ इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम (ईसीजी) की प्रकृति की सुविधाएं उपलब्ध हैं : हां..... नहीं.....

11. कटौती की संगणना से संबंधित ब्यौरे :

- (i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल चलाने और उसके अनुसूचण के कारबार से कुल प्राप्तियां
 (ii) उपक्रम की अन्य प्राप्तियां
 (iii) उपक्रम द्वारा निर्धारिती के संबंधित समुत्थान या निर्धारिती या उपक्रम के स्वामी के किसी अन्य उपक्रम के साथ संव्यवहार [संबंधित समुत्थान धारा 40क(2)(ख) के अर्थान्तर्गत कोई व्यक्ति है]

संबंधित व्यक्ति/समुत्थानों की प्रकृति

संव्यवहार (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)

- (क) रुपए
 (ख) रुपए
 (ग) रुपए
 (घ) रुपए

- (iv) किसी ग्रामीण क्षेत्र***में कोई अस्पताल चलाने और उसका अनुसूचण करने के कारबार से उपगत लाभ
 (v) धारा 80-झख(11ख) के अधीन कटौती (रुपयों में रकम)

घोषणा

*मैंने/हमने पर निर्धारिती मैसर्स..... (स्थाई खाता संख्या.....) के..... **नाम के उपरोक्त उपक्रम के तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त उपक्रम के लाभ और हानि लेखा की जांच कर ली है जो पर प्रधान कार्यालय और..... पर शाखा कार्यालय पर रखी गई लेखा-बहियों के अनुसार सही हैं ।

*मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो *मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे । *मेरी/हमारी राय में, पूर्वोक्त उपक्रम के प्रधान कार्यालय और उसकी उन शाखाओं द्वारा, जहां *मैं/हम गया/गए, जहां तक बहियों की *मेरी/हमारी जांच से प्रकट

होता है, उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं और उन शाखाओं से, जहां में नहीं गया / हम नहीं गए, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हो गई हैं :—

*मेरी/हमारी राय में, उपक्रम धारा 80-झख में अनुबंधित शर्तों को पूरा करता है और इस धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है, और

*मेरी/हमारी राय में, और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी से तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त खाते निम्नलिखित के संबंध में सही और ऋजु स्थिति बतलाते हैं—

(i) तुलनपत्र की दशा में,.....पर ऊपर नामित उपक्रम के कार्यकलापों की स्थिति ; और

(ii) लाभ और हानि लेखा की दशा में,.....को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए उपक्रम का लाभ या हानि ।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

लेखापाल

टिप्पणियां :

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें ।
2. **यहां नाम और पता दें ।
3. ***कृपया उपक्रम लाभ और हानि लेखा और तुलनपत्र दें ।
4. \$यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है—

- (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट ; और
- (ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के कारण, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए हकदार है ।”

[अधिसूचना सं. 58/2005/फा. सं. 142/38/2004-टीपीएल]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण— मूल नियम तारीख 26 मार्च, 1962 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) में का0आ0 969(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे जिनमें समय-समय पर संशोधन किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन), नियम, 2005 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ.185(अ) तारीख 9-2-2005 के तहत किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 232(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (11B) of section 80-IB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (5th Amendment) Rules, 2005.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(a) after rule 18DC, the following rule shall be inserted, namely:-

“Form of report for claiming deduction under sub-section (11B) of section 80-IB.

18DD. The report of an accountant which is required to be furnished by the assessee along with the return of income, under sub-section (11B) of section 80-IB shall be in Form No. 10CCBC.”

(b) in Appendix-II, after form No. 10CCBB, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM NO. 10CCBC

{See Rule-18DD}

1. Name of the assessee :
2. PAN:
3. Status:
4. Ownership of the hospital:

(a) Whether the hospital is owned by the assessee Yes _____ No _____

(b) (i) if no, name of the owner

(ii) whether the owner is a person referred
to in section 40A(2)(b) Yes _____ No _____

5. Name and address of the hospital:

6. Date of commencement of medical services:
7. Initial assessment year:
8. Approval from the local authority under the local regulation (attach a copy of the approval in the initial assessment year):

Approval	Issuing authority	Approval date and number
(a) Permission for construction of the hospital		
(b) Completion certificate		

9. Location of the hospital:

- (i) Name of the locality/area in which the hospital is situated. _____
- (ii) Whether the said locality/area is within the jurisdiction of a municipality or Cantonment Board (please also indicate the name of the municipality/cantonment Board) Yes___ No___
- (a) If yes, please indicate the population size of the locality/area in which the hospital is situated (as per 2001 census) _____
- (b) If no, please indicate the distance of such area from the local limits of the municipality or Cantonment Board. _____

10. Technical specifications of the hospital:

- (a) Number of beds for the patients _____
- (b) Whether an operation theatre is provided Yes___ No___
- (c) Whether a labour room is provided Yes___ No___
- (d) Whether a pathological laboratory is maintained in the hospital Yes___ No___
- (e) Number of qualified doctors available in the hospital (Round the clock) _____
- (f) Number of nurses available (Round the clock) _____
- (g) Whether hospital is equipped to handle emergency cases Yes___ No___
- (h) Whether the facilities in the nature of Magnetic Resonance Imaging (MRI)/Electrocardiogram (ECG) are available Yes___ No___

11. Details relating to computation of deduction:

- (i) Total receipts from the business of operating and maintaining a hospital in a rural area _____
- (ii) Other receipts of the undertaking _____

- (iii) Transactions by the undertaking with a related concern of the assessee, or another undertaking of the assessee or the owner of the undertaking {Related concern is a person within the meaning of section 40A(2)(b)}

Nature of the related persons/concerns	Transaction (Please specify Nature and amount).
(a)	Rs.....
(b)	Rs.....
(c)	Rs.....
(d)	Rs.....

- (iv) Profits derived from the business of operating

and maintaining a hospital in a rural area*** _____

- (v) Deduction under section 80-IB(11B)(amount in rupees) _____

Declaration

*I/We have examined the balance sheet of the above undertaking styled**.....and belonging to the assessee M/s.....(Permanent Account No.....) as at..... and the profit and loss account of the said undertaking for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained at the head office at.....and branches at.....

*I/We have obtained all the information and explanations which to the best of **my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In *my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the undertaking aforesaid visited by *me/us so far as appears from *my/our examination of books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by *me/us, subject to the comments given below:-

*In my/our opinion, the undertaking satisfies the conditions stipulated in section 80-IB and the amount of deduction claimed under this section is as per the provisions of the Income-tax Act, and

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the said accounts given a true and fair view-

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named undertaking as at...., and
- (ii) in the case of the profit and loss account, of the profit or loss of the undertaking for the accounting year ending on.....

Place.....

Date.....

Signature

Accountant\$

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable.
2. **Here give name and address.
3. ***Please provide profit and loss account and balance sheet of the undertaking.
4. \$This report is to be given by-

- (i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or
- (ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions in sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State."

[Notification No. 58/2005/F. No. 142/38/2004-TPL]

CHANDRAJIT SINGH, Under Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, section 3(ii), dated the 26th March, 1962 vide S.O. 969 (E) which was amended from time to time and last amended by Income-tax (4th) Rules, 2005 vide Notification S.O. No.185(E) dated 09.02.2005.